



GRAVITA INDIA LTD.

Corp. Office : 402, Gravita Tower, A-27 B, Shanti Path,
Tilak Nagar, JAIPUR-302 004, Rajasthan (INDIA)
Phone : +91-141- 2623266, 2622697 FAX : +91-141-2621491
E-mail : info@gravitaindia.com Web. : www.gravitaindia.com
CIN : L29308RJ1992PLCO06870

07th August, 2018

GIL/2018-19/90

To,

| | |
|--|---|
| The BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400 001 Fax No.: 022-22722041 Scrip Code- 533282 | The listing Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra- Kurla Complex Bandra(east) Mumbai- 400 051 Fax No.: 022-26598237/38 Company Code- GRAVITA |
|--|---|

Subject: Submission of copy of Notices of Annual general Meeting and E-Voting Information.

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 47(3) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we enclose herewith copy of newspaper clippings on Notice of Annual General Meeting and E-Voting Information of the Company published in English in "The Financial Express" and in "Nafa Nuksaan" Hindi newspaper on 07th August, 2018.

Kindly take the same on record and acknowledge receipt.

Yours Faithfully
For Gravita India Limited


Nitin Gupta



(Company Secretary)
ACS-31533

Encl: As above

Brazilian start-ups to showcase smart farming tech

HUMA SIDDIQUI
New Delhi, August 6

WITH A GROWING URBAN population and a growing need for food, Brazil can help ensure India's food security in a sustainable manner through the exchange of latest food processing and agriculture technology.

For the first time, four agriculture start-ups from Brazil will be in India this month to participate in the 10th edition of Agri-tech in Bengaluru.

The Brazilian start-ups including Agribela, Agronov, Scicrop and Termoplex will be participating in workshops with other Indian agri-techs in an incubator from August 31 to September 2.

Since both the countries are signatories to the "Strategic Partnership", both countries are trying to share their expertise, improve quality standards and technological know-how. These Brazilian agri-techs will be showcasing state-of-the-art technology and solutions in smart farming, artificial intelligence, remote sensing, management of silos, pest control and much more.

Speaking to *FE*, Pedro Ivo Ferraz da Silva, head of the energy, environment and science, technology & innovation section, embassy of Brazil said, "The idea of getting these start-ups to participate in workshops here is to exchange information related to new technologies Brazil can offer to India for its agro sector."

"Pilot project for the start-ups in the agriculture sector has been started in Brazil and will ensure that these start-ups are successful and are given an opportunity to travel overseas for learning experiences," Silva added. Brazil is strong in pulse production and India requires pulse imports, so both countries are working together in achieving their individual targets.

BAN ON LOUS/LCS

House panel says RBI acted in haste

FE BUREAU
New Delhi, August 6

A PARLIAMENTARY PANEL has said the Reserve Bank of India (RBI)'s ban on letters of undertaking/comfort in the wake of the \$2.2-billion fraud at Punjab National Bank was a "knee-jerk" reaction and suggested that such credit instruments be restored.

Some PNB staff at a Mumbai branch issued illegal LoUs/LoCs to jewellers Nirav Modi and Mehul Choksi, causing the biggest fraud in the Indian banking history, which prompted the RBI to stop these instruments that were widely used in trade finance.

"It's (banning LoUs/LCs) a typical case of throwing baby along with bath water and it must be stopped," said a report by the Parliamentary Standing Committee on Commerce, headed by Rajya Sabha member Naresh Kumar.

It, however, recommended that adequate safeguards be built in the systems to ensure LoUs/LCs can't be abused. The report, presented in Parliament on Tuesday, also called for necessary steps to simplify and streamline the processing of letters of credit (another such instrument that wasn't banned).

According to the report, export credit dropped 24.4% in the last fiscal and as a percentage of priority sector lending, it was only 1.74%. "The committee felt that such a decline in exports credit, along with discontinuance of the issuance of the LoU/LC, might not augur well for the future. In case of Nirav Modi and Choksi, these guarantees, issued fraudulently, were used by them to borrow overseas to fund imports.

The report said, "The committee is not satisfied with the justification proffered by the RBI for discontinuing issuance of LoUs/LCs" and that the cen-



tral bank has perhaps not held enough consultations before banning these instruments.

According to the committee, the RBI said it was advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDA) to discontinue these instruments as "there was neither a standard format for LoUs/LCs nor a standard protocol, like the one prescribed by the ICC (International Chambers of Commerce) in respect of LCs (letters of credit) or documentary credit".

However, representatives of public and private sector banks, many of whom were FEDAI members, told the parliamentary panel that LoUs/LoCs were an effective instrument for raising short-term credit in foreign currency.

All banks unanimously endorsed the fact that they were not flawed, the report said. "Instead, these were means of raising cheaper

finance for trade."

The Department of Financial Services (DFS) had sought comments from the central bank on the impact of scrapping LoUs/LCs on credit costs of short-term foreign currency loans. The central bank, according to the panel, said there was no comparative reporting on the quantum or cost of trade finance through LoUs/LCs against other available avenues. Apart from traders and exporters, the DFS had in March urged the central bank to review the restriction.

Earlier, Federation of Indian Export Organisations president Ganesh Kumar Gupta had said the ban could result in the cost of trade financing instruments by about 0.5% to 1%. According to a report by India Ratings, total buyer credit for the top 160 importers was ₹33,100 crore in 2016-17, of which ₹3,12,000 crore was to large importers.

ED attaches 24 properties of Pavai Alloys

FE BUREAU
Chennai, August 6

THE ENFORCEMENT DIRECTORATE (ED) has attached 24 properties of Tamil Nadu-based Pavai Alloys & Steel under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 in a case of bank fraud. The value of the properties attached is ₹34 crore, according to a press release.

The CBI registered a case under Section 120B of the Indian Penal Code and accordingly filed a charge sheet against Pavai Alloys and its five directors on November 13, 2017. Based on the CBI probe, a money laundering case was registered by the ED against the company and its five directors under the PMLA.

During the investigation, it was found that directors of Pavai Alloys had fraudulently availed of loans based on fabricated/fake balance sheet and defrauded Indian Bank to the tune of ₹42.17 crore, the release said.

Ten immovable properties in Coimbatore and Namakkal districts in the name of the

director of Pavai Alloys were identified and attached under the provisions of the PMLA. These properties are valued at ₹23.50 crore.

The ED also identified and attached 14 more immovable properties in the name of the children of the directors. These are worth ₹10.50 crore.

IRCON INTERNATIONAL LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
Website: www.ircon.org CIN-U45203DL1976GO008171

e-Procurement Notice

e-Tender No: IRCON/J&K-CELL/JAT/14/1914/IND-BNL/Vehicle-IRCON/VH-26407 Dated: 06/08/2018
e-Tender in Single J&K bid system is invited from bidders meeting qualifying requirements for the work of "Hiring of vehicles for IRCON's officers and staff from IND (T14 B) to Sumer (T-49A) in connection with the Construction of Ind-Banihal Section of USBRL New Rail Link Project (J&K) (Package VH: 26)".

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Estimated Cost of the work | ₹ 465.24 Lakh. |
| Earnest Money Deposit | ₹ 5.66 Lakh |
| Completion Period | 24 (Twenty Four) months |
| Cost of Tender Documents | ₹ 10,000/- (Ten Thousand only) |
| Last Date & Time of e-Bid Submission | 06.09.2018 upto 15.00 Hrs. (IST) |

For further details, visit website https://www.tenderwizard.com/IRCON_Amendments/Corrigendum, if any, will be hosted only on the website.

Chief General Manager/BNL/J&K
Address: J&K Rail Project, Katra-Banihal Section, Vill. Krawah, Post Banihal, Distt. Ramban, J&K 182146

INDAG RUBBER LIMITED
CIN: L74899DL1978PLC009038
Regd. Office: 11 Community Centre, Saket, New Delhi - 110017
Email: info@indagrubber.com; Website: www.indagrubber.com; Phone: 011-26963172

NOTICE FOR THE LOSS OF SHARE CERTIFICATES

NOTICE is hereby given to the general public that the following share certificates of the company have been reported to be lost/nst traceable by the shareholders:

| Sr. No. | Name of the Shareholder | No. of Share | Certificate No. | Distinctive No. From To |
|---------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 1. | Praveen Kumar | 500 | 1443 | 517641-518140 |

Members of public are hereby cautioned that buying, selling or otherwise dealing in the above mentioned share certificate by any person shall be illegal and he shall do so at his own risk. The company will not be liable for the same.

Notice is and is hereby further given that the company has received a request for issue of duplicate share certificate in lieu of the original.

If no objection is received from any members or the public within 15 days from the date of publication of the notice, then the company will proceed to issue duplicate share certificate in lieu of the aforesaid lost share certificate.

Place: New Delhi
Date: August 06, 2018

For Indag Rubber Limited
Sd/-
Company Secretary

NAM SECURITIES LIMITED
CIN: L74899HR1994PLC053200
Regd. Off: LGF, Plot No.410, Sector-31, Gurugram-122001(Haryana)
Email Id: compliance@namsecurities.in, Tel: 911-2373112244
Website: www.namsecurities.in

NOTICE

Notice is hereby given Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of Board of Directors of NAM SECURITIES LIMITED is scheduled to be held on Tuesday, August 14, 2018 at its registered office at 04.00 p.m. inter-alia to consider and approve Standalone Un-audited Financial Results of the Company along with Limited Review Report of the Statutory Auditor for the quarter ended 30th June, 2018 and to consider/inter alia in the Existing Authorise Share Capital of the Company from Rs. 3,25,00,000 divided into 32,50,000 equity shares of Rs. 10 each to Rs.52,50,00,000 divided into 52,50,000 equity shares of Rs. 10 each and Consequently Alteration in the Capital Clause of the Memorandum of Association, and to consider issue of 20,00,000 Preferential issue of warrants to the Promoter and/or Promoter Group and Non Promoter Group in accordance with applicable SEBI Regulations, and to consider and approve Draft Notice of AGM and Draft Annual Report and other connected matters. Further, in accordance with the Company's Code of Conduct for prevention of Insider Trading as per Regulation 9 of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for all the directors or designated employees or connected persons of the company, their immediate relatives will remain closed from 7th August, 2018 to 16th August 2018 (both days inclusive).

This information is available on BSE website (www.bseindia.com).

For NAM Securities Limited
Sd/-
Roshan Kumar Patra
Date : August 06th, 2018
Place : Gurugram

JMT AUTO LIMITED
An AMTEK Group Company
Regd. Office: 3-L S C Pamposh Enclave, Guru Nanak Mkt, Opp L.S.C Market, New Delhi - 110048
CIN - L4274DL1997PLC270939
Phone: 0657-6626340
Email: jmt.auto@amtek.com
Website: www.jmtauto.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that a meeting of Board of Directors of JMT Auto Limited shall be held on Monday, the 13th day of August, 2018 at the Registered Office at Delhi at 3 LSC Pamposh Enclave, Guru Nanak Market, Opp. LSC Market, New Delhi-110048 to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2018. The trading window shall remain close for all designated employees of the company from 6th August, 2018 and shall continue until the beginning of 25th hour after the public announcement of the financial results are made. The said information is also available on the company's website www.jmtauto.com and on the website of www.bseindia.com.

By Order of the Board of Directors
For JMT AUTO LTD.
Sd/-
Mona K Bahadur
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: 06.08.2018

PUNJAB & SIND BANK
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
Z.O. : GURGAON
B.O. : Bhagwati Bhawan Dampier Nagar Opposite Heera Invitation Mathura

Rule [8(1)] POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property) Security Interest (Enforcement Security 2002)

Notice is hereby given under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule No. 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice U/S 13(2) on the date mentioned below in the table and stated hereinafter calling upon to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. As the borrower(s)/guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s)/guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule No. 9 of the said rules on the date mentioned below in the table.

The borrower(s)/guarantor(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of PUNJAB & SIND BANK for the amount given herein below together with future interest, costs and other expenses etc. thereon.

| Name & address of the Branch | Name of the borrower(s) /guarantor(s) /Mortgagor | Description of the immovable property (All the part & parcel of Immovable Property) | Date of Demand Notice | Date of Possession Notice | Amount O/s as per Demand Notice 13(2) |
|--|--|--|-----------------------|---------------------------|--|
| Punjab and sind bank Bhagwati bhawan Dampier nagar Opposite heera invitation mathura | 1. Bajant Trading Company through a prop. S andhya Chaturvedi (Borrower) 2. Sh. Bal Kishan Singh, Sh. Prushottam Lal Chaturvedi (Guarantor) 3. Smt. Sandhya Chaturvedi (Mortgagor) | All Part & Parcel of Immovable Property Plot measuring East: 33.3 Ft., West: 33.3 Ft., North: 19.5 Ft., South: 13.5 Ft., Being total area 49.58 Sq. yd. Situated at Adarsh Nagar, Maholi Road Mathura as per registered gift deed dt. 15.10.2016 registered in book No. 1 Vol. 12862, Page No. 87-106 at Sr. No. 14313 in the office of Sub registrar, property bounded by East: Gali wide 5 Ft., West- Share of Bhawan Das., North : Rasta wide 30 Ft. South Property of Smt. Sandhya Chaturvedi. | 06.04.2018 | 01.08.2018 | Rs. 1562609.92 (Fifteen Lakh Sixty Two Thousand Six Hundred Nine and paisa Ninety Two only) Inclusive intt. up to 31.03.2018 with future interest at the applicable rate w.e.f. 01.04.2018, costs, expenses & other charges etc. thereon |
| Punjab and sind bank Bhagwati bhawan Dampier nagar Opposite heera invitation mathura | 1. Ms. S. Sandhya Chaturvedi D/o Shri Bal Kishan Chaturvedi (Borrower) 2. Ms. Sandhya Chaturvedi W/o Shri Bal Kishan Chaturvedi (Guarantor) 3. Smt. Sandhya Chaturvedi (Mortgagor) | All the part & Parcel of Immovable Property Water rate no. 240/35, measuring East to West: 26 ft & North to South: 60 ft being total area 173.33 Sq.yd. Situated at Shanti Nagar, Maholi road, Regd. Dist. Mathura. Sale Deed: Registered Sale deed dated 15.06.2004 registered in the book no. 1 vol. 2778, Page no. 113-124, At Sr. no. 6182, in the office of sub-registrar, Mathura. | 06.04.2018 | 01.08.2018 | Rs. 25,63,163.90/- (Twenty Five Lakh Sixty Three Thousand One Hundred Ninety and Paise Ninety only) Inclusive intt. up to 31.03.2018 with future interest at the applicable rate w.e.f. 01.04.2018, costs, expenses & other charges etc. thereon |

Date:- 07.08.2018 Place:- Mathura Sd/- AUTHORISED OFFICER, PUNJAB & SIND BANK

GRAVITA INDIA LIMITED
Regd. & Works Office: SAURABH, Chittora Road, Hansula Mod, Digg-Malpura Road, Teh: Phagi, Jaipur - 303 904
CIN : L29308RJ1992PLC006870

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twenty Sixth Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held on Saturday, 01st September, 2018 at 11.00 a.m. at "Saurabh", Chittora Road, Hansula Mod, Digg-Malpura Road, Tehsil-Phagi, Jaipur-303904 (Rajasthan).

The Notice of AGM together with the Annual Report for the year 2017-18 has been dispatched to all the members by the permitted mode on 06 August, 2018. The Annual Report for the year 2017-18 together with the Notice of AGM have been sent to the members electronically to the e-mail ids registered by them with the Depository Participant(s). The Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2017-18 are also available on the Company's website i.e. www.gravitaIndia.com and www.cdslindia.com.

Pursuant to section 91(1) of Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement), Regulations, 2015, (Listing Regulations) Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from Saturday, 25th August, 2018 to Saturday, 01st September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of annual closing. The dividend @ Rs. 0.70 per Equity Share of Rs. 2/- each as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM, will be paid to such shareholders whose name appears in the Register of Members/Beneficiaries Position from Depositories as on Friday, 24th August, 2018.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder, and provisions of Listing Regulations, the company is pleased to offer remote e-voting facility for the members to enable them to cast their vote electronically on all business set forth in the Notice of AGM. Accordingly, the business may be transacted through voting by electronic means. For this purpose, the company has signed an agreement with the Central Depository Service (India) Limited ("CDSL") for facilitating remote e-voting. A member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on 25th August, 2018 (being the cut-off date) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. The instructions for remote e-voting process are given in the Notice of AGM. The Annual Report and the Notice of AGM are also available on website of the company at www.gravitaIndia.com and of CDSL at www.cdslindia.com.

The voting through Electronic means would commence on Wednesday, 29th August, 2018 at 9.00 a.m. and would end on Friday, 31st August, 2018 at 05.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and the shareholders will not be able to cast their vote beyond the date and time mentioned above. A member may participate in AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Voting at AGM will be held by way of Poll/Ballot Paper. Person who acquires shares of the company and become Member after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares at the cut-off date can follow the process for generating the Login ID and Password as provided in Notice of AGM.

For any grievances pertaining to the E-voting facility, the members may visit FAQ's section available at CDSL's website at <https://www.evotingindia.com> or contact the company at Gravita India Limited, Gravita Tower, A-27B, Shanti Path Tikah Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan), Telephone: +91-141-4057810, Email: companysecretary@gravitaIndia.com, Contact Person: Mr. Nitin Gupta, Company Secretary.

By order of the Board
Sd/-
Nitin Gupta
(Company Secretary)
(AC 31533)

Place : Jaipur
Date : 06th August, 2018

SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED
Registered Office: Office No. 123, Angappa Naicken Street, Chennai – 600 001.
Head Office: Level -1, Wockhardt Towers, East Wing C-2 Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051;
Telephone: 022 4241 0400, 022 4060 3100 ; Website: www.shriramhousing.in

ONLINE E- AUCTION SALE OF ASSETS

The Authorised Officer of Shriram Housing Finance Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 [54 OF 2002] and in exercise of powers conferred under the said Act is auctioning the following property on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS CONDITION" by way of "online e-auction" for recovery of its dues and further interest, charges and costs etc. as detailed herein below through website <https://property.samil.in>

| Name of the Borrower and Co-Borrower | Description of the Secured Asset being auctioned along with boundary details | 13(2) Demand Date & Notice Amount | Earnest Money Deposit (EMD) Details | Earnest Money Deposit (EMD) (Rs.) | Reserve Price (Rs.) |
|--|---|--|---|--|--|
| MRS.HASEENA and MR. MOHD LAIK KHAN SHLNLCNWO00094 | All that the piece and parcel of house property being House on Minjulla Khasara No.342, having area admeasuring about 320sq.ft. situated at Village: Gaurbheet, Ward- Faizullaganj, Lucknow, Uttar Pradesh Towards EAST : Aragi Sellar; Towards WEST : 15' wide Road; Towards SOUTH : Plot of Rajinder (House); Towards NORTH : Aragi Sellar (House of Kunal Choudhary) | Rs. 7,22,320 (Rupees Seven Lacs Twenty Two Thousand Three Hundred and Twenty only) plus further interest and cost charges. | EMD amount to be deposited by way of RTGS/ NEFT to the account details mentioned herein below: BANK NAME - AXIS BANK LIMITED BRANCH - BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI BANK ACCOUNT NO- 01200013220035 IFSC CODE- UTIB0000230 | Rs. 71644.13/- (Rupees Seventy One Thousand Six Hundred Forty Four Only) Last date for submission of EMD 30th August, 2018 i.e. Thursday on or before 6:00 p.m. | Rs.716441.30/- (Rupees Seven Lacs Sixteen Thousand Four Hundred Forty One Only) Bid Increment Rs. 10,000/- and in such multiples Date and Time of Inspection of Property 24th August, 2018 i.e. Friday between 11:00 am to 1:00 p.m. |

Demand Notice Date: 17th March-2016

Physical Possession Date: 23th May-2017

- Terms and Conditions of E- Auction:**
- The Auction is conducted as per the further Terms and Conditions of the Bid document and as per the procedure set out therein. Bidders may go through the website of Shriram Housing Finance Limited (SHFL), www.shriramhousing.in and website of the service provider, <https://property.samil.in> for bid documents, the details of the secured asset put up for auction/ obtaining the bid form.
 - For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact Mr. Jitendra Gupta/ M/s. Shriram Automall India Limited (SAMIL), Contact Number : +91- 9451019302.
 - All the intending purchasers/bidders are required to register their name in the portal mentioned above as <https://property.samil.in> and get user ID and password free of cost to participate in the e-auction on time and time aforesaid.
 - To the best of knowledge and information of the Authorised officer, there is no encumbrance in the property/ies. However the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrance, title of property/ies put up for auction and claims/rights/dues/unknown to the property prior to submitting their bid. The E-Auction advertisement does not constitute any commitment or representation of SHFL. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or affecting to SHFL. The Authorised officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues.
 - For participating in the e-auction, intending purchasers/bidders will have to submit the details of payment of refundable Earnest Money Deposit of 10% of the reserve price of the secured assets along with Self attested copies of the PANCARD/AADHAR Card, Residence Proof, Board Resolutions in case of company and Affidavit of Proof on or before 30th August, 2018 i.e. Thursday.
 - The successful purchaser/bidder shall deposit the 25% (inclusive of EMD) of his/its offer by RTGS/ NEFT to the account mentioned herein above on or before 18:00 hours on 11th September, 2018 i.e. Tuesday i.e. day of auction, which deposit will have to be confirmed by SHFL, failing which the sale will be deemed have been failed and the EMD of the said successful bidder shall be forfeited.
 - The EMD of all other bidders who did not succeed in the e-auction will be refunded by SHFL within 72 hours of the closure of the e-auction. The EMD will not carry any interest.
 - The balance amount of purchase consideration shall be payable by the successful purchaser/bidder on or before the fifteenth day from the date of confirmation of sale of the said secured asset by the Authorised Officer/Secured Creditor or such extended period as may be agreed upon in writing by the Authorised officer at his/her discretion. In case of default, all amounts deposited till then shall be liable to be forfeited.
 - For inspection of property or more information, the prospective bidders may contact the authorised officer Mr. Ahsan Khan and Mr. Amit Jaiswal at ahsan.khan@shriramhousing.com and amit.jaiswal@shriramhousing.com (email) or on 09911796331 and 979277791 (Mobile).
 - At any stage of the auction, the Authorised Officer may accept/reject/modify/cancel the bid/offer or post-pone the auction without assigning any reason thereof and without any prior notice.
 - The successful purchaser/bidder shall bear any statutory dues, taxes, fees payable, stamp duty, registration fees, etc. that is required to be paid in order to get the property conveyed/delivered in his/her/its favour as per the applicable law.
 - The Borrower/Guarantors, who are liable for the said outstanding dues, shall treat this Sale Notice as a notice under Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, about the holding of above mentioned auction sale.
- NB: Please note that the secured creditor is going to issue the sale notice to all the Borrowers/ Guarantors/ Mortgagors by speed/ registered post. In case the same is not received by any of the parties, then this publication of sale notice may be treated as a substituted mode of service.**
- Place: Lucknow (Uttar Pradesh)
Date : 07.08.2018
- Sd/-
Authorised Officer
Shriram Housing Finance Limited



